



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 132]

नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 10, 2006/माघ 21, 1927

No. 132]

NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 10, 2006/MAGHA 21, 1927

वस्त्र मंत्रालय

(पटसन आयुक्त का कार्यालय)

अधिसूचना

कोलकाता, 10 फरवरी, 2006

का.आ. 201(अ).— भारत के राजपत्र के असाधारण भाग-II, खंड-3, उपखंड (ii) में प्रकाशित दिनांक 11 नवम्बर 2005 के अधिसूचना सं० एस० ओ० 1590(ई) में अंशतः परिवर्तन करते हुए और पटसन तथा पटसन वस्त्र निर्यंत्रण आदेश 2000 की धारा 3 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, एस. मजुमदार, पटसन आयुक्त, एतद् द्वारा प्रति 100 बोरे की अधिकतम फैक्टरी उत्तर (एक्स फैक्टरी) मूल्य अन्तिम रूप से रु० 1977.38 निर्धारित करता हूँ, जिसमें 50 किलोग्राम बैंकिंग हेतु उन्हीं बी. टवील जूट बोरे जिनका आकार 94 सेंमी०(+4,-0) X 57 सेंमी०(+4,-0)/ एच०डी० और द्रव्यमान प्रति बोरे 665 ग्राम (+8%,-6%) हो, अन्तिम सिरे प्रति डी० एम० 76(+4,-3) हो तथा पिक्स प्रति डी० एम० 28(+2,-2) जिसमें बोरे की लंबाई के मध्यभाग में एकहरी नीली धारी हो तथा किनारे की किसी भी साइड से लगभग 150 मि०मी० की दूरी पर दो क्रमागत लाल बाने के धागों का बना एक अतिरिक्त पहचान चिन्ह भी हो, जिनमें मजबूत सिलाई की गई हो तथा जो अन्य सभी दृष्टियों से भी भारतीय मानक ब्यूरो के विनिर्देशन (सं० भा० मा० 12650-2003, अद्यतन यथासंशोधित) के अनुरूप हो सितम्बरमाह, 2005 के दौरान खरीद अथवा बिक्री की जा सकेगी। प्रत्येक बोरे पर पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय, कोलकाता द्वारा विनिर्दिष्ट मोनोग्राम सहित बोरे पर मुद्रित मिल के नाम के पास भारतीय मानक ब्यूरो का प्रमाण चिन्ह भी हो। भारतीय मानक ब्यूरो के पूर्वोक्त विनिर्देशन में किए गए प्रावधान के अनुसार बोरे की न्यूनतम औसत सामर्थ्य (ब्रेकिंग स्ट्रेन्थ) ताने की 160 के० जी० एफ० और बाने की 145 के० जी० एफ० हो।

2. दिनांक 11 नवम्बर 2005 की अधिसूचना सं० एस० ओ० 1590(ई) द्वारा सितम्बर माह, 2005 के लिए प्रति 100 बोरे के लिए पूर्व निर्धारित मूल्य रु० 1983.63 में एतद्द्वारा संशोधन किया गया। सितम्बर माह, 2005 के लिए उक्त अधिसूचना सं० एस० ओ० 1590(ई) में उल्लिखित अन्य सभी शर्तें अपरिवर्तित रहेगा तथा पारा 2 को हटा लिया गया है।

3 इस अधिसूचना के अधीन निर्धारित की गई मूल्य में जूट विनिर्माता उपकर अधिनियम, 1983 के अन्तर्गत देय उत्पाद शुल्क और बिक्रीकर सम्मिलित नहीं हैं एवं खरीददार द्वारा फैक्टरी उत्तर मूल्य के अलावा इन्हें अलग से भुगतान करना होगा।

[फा. सं. 8/1/2006-जूट]

एस. मजुमदार, पटसन आयुक्त

MINISTRY OF TEXTILES
(OFFICE OF THE JUTE COMMISSIONER)

NOTIFICATION

Kolkata, the 10th February, 2006

S.O. 201(E).—In partial modification of notification no. S.O. 1590(E), dated 11th November, 2005 published in the Gazette of India, Extra-ordinary, Part-II Section-3, Sub-Section (ii) and in exercise of the powers conferred by Section-3 of the Jute and Jute Textiles Control Order, 2000, I, S. Majumdar, Jute Commissioner, hereby finally fix **Rs. 1977.38** per 100 bags as the maximum ex-factory price of B. Twill Jute Bags for 50kg packing of the size 94 cm(+4,-0) x 57 cm (+4,-0) / HD., 665gms.(+8%,-6%) mass per bag, 76(+4, -3) ends per dm, 28(+2, -2) picks per dm., single blue stripe running along the length of the bag at the centre along with additional identification marking of two consecutive red warp threads at a distance of about 150 mm away from any one side of the selvage, dry sewn and conforming in all other respects to the current BIS specification (No. IS: 12650-2003 as amended till date) purchased or sold during the month of **September, 2005**. Every bag is to be branded with monogram to be specified by DGS&D, Kolkata with the name of the manufacturing mill printed on it as well as BIS certification marking. The average minimum breaking strength shall not be less than 160 kgf for warp way and 145 kgf for weft way as provided in the aforesaid specification of BIS.

2. The price of Rs 1983.63 per 100 bags earlier fixed and published vide notification no S.O. 1590(E) dated 11th November, 2005, for the month of **September, 2005**, is hereby **revised**. All other conditions as mentioned in the notification no S.O. 1590(E) dated 11th November, 2005 published for the month of **September, 2005** remain unaltered and Para 2 stands withdrawn.

3. The price fixed under this Notification shall be exclusive of duty of excise, cess payable under Jute Manufacture Cess Act, 1983 and Sales Tax which shall be paid in addition to the ex-factory price by the purchaser.

[F. No. 8/1/2006-Jute]

S. MAJUMDAR, Jute Commissioner

अधिसूचना

कोलकाता, 10 फरवरी, 2006

का.आ. 202(अ).—भारत के राजपत्र के असाधारण भाग-II, खंड-3, उपखंड (ii) में प्रकाशित दिनांक 11 नवम्बर 2005 के अधिसूचना सं० एस० ओ० 1591(ई) में अंशतः परिवर्तन करते हुए और पटसन तथा पटसन वस्त्र नियंत्रण आदेश 2000 की धारा 3 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, एस. मजुमदार, पटसन आयुक्त, एतद् द्वारा प्रति 100 बोरे की अधिकतम फैक्टरी उत्तर (एक्स फैक्टरी) मूल्य अन्तिम रूप से रु० 1905.96 निर्धारित करता हूँ, जिसमें 50 किलोग्राम पैकिंग हेतु उन्हीं बी. टवील जूट बोरे जिनका आकार 94 सेंमी०(+4,-0) X 57 सेंमी०(+4,-0)/ एच०डी० और द्रव्यमान प्रति बोरे 665 ग्राम (+8%,-6%) हो, अन्तिम सिरे प्रति डी० एम० 76(+4,-3) हो तथा पिक्स प्रति डी० एम० 28(+2,-2) जिसमें बोरे की लंबाई के मध्यभाग में एकहरी नीली धारी हो तथा किनारे की किसी भी साइड से लगभग 150 मि०मी० की दूरी पर दो क्रमागत लाल बाने के धागों का बना एक अतिरिक्त पहचान चिन्ह भी हो, जिनमें मजबूत सिलाई की गई हो तथा जो अन्य सभी दृष्टियों से भी भारतीय मानक ब्यूरो के विनिर्देशन (सं०भा०मा० 12650-2003, अद्यतन यथासंशोधित) के अनुरूप हो अक्टूबर माह, 2005 के दौरान खरीद अथवा बिक्री की जा सकेगी। प्रत्येक बोरे पर पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय, कोलकाता द्वारा विनिर्दिष्ट मोनोग्राम सहित बोरे पर मुद्रित मिल के नाम के पास भारतीय मानक ब्यूरो का प्रमाण चिन्ह भी हो। भारतीय मानक ब्यूरो के पूर्वोक्त विनिर्देशन में किए गए प्रावधान के अनुसार बोरे की न्यूनतम औसत सार्मथ्य (ब्रेकिंग स्ट्रेन्थ) ताने की 160 के० जी० एफ० और बाने की 145 के० जी० एफ० हो।

2. दिनांक 11 नवम्बर 2005 की अधिसूचना सं० एस० ओ० 1591(ई) द्वारा अक्टूबर माह, 2005 के लिए प्रति 100 बोरे के लिए पूर्व निर्धारित मूल्य रु० 1912.21 में एतद्द्वारा संशोधन किया गया। अक्टूबर माह, 2005 के लिए उक्त अधिसूचना सं० एस० ओ० 1591(ई) में उल्लिखित अन्य सभी शर्तें अपरिवर्तित रहेगा।

3 इस अधिसूचना के अधीन निर्धारित की गई मूल्य में जूट विनिर्माता उपकर अधिनियम, 1983 के अन्तर्गत देय उत्पाद शुल्क और बिक्रीकर सम्मिलित नहीं हैं एवं खरीददार द्वारा फैक्टरी उत्तर मूल्य के अलावा इन्हें अलग से भुगतान करना होगा।

[फा. सं. 8/1/2006-जूट]

एस. मजुमदार, पटसन आयुक्त

NOTIFICATION

Kolkata, the 10th February, 2006

S.O. 202(E).—In partial modification of notification no. S.O. 1591(E), dated 11th November, 2005 published in the Gazette of India, Extra-ordinary, Part-II Section-3, Sub-Section (ii) and in exercise of the powers conferred by Section-3 of the Jute and Jute Textiles Control Order, 2000, I, S. Majumdar, Jute Commissioner, hereby finally fix Rs. 1905.96 per 100 bags as the maximum ex-factory price of B. Twill Jute Bags for 50kg packing of the size 94 cm(+4,-0) x 57 cm (+4,-0) / HD., 665gms.(+8%,-6%) mass per bag, 76(+4,-3) ends per dm, 28(+2,-2) picks per dm., single blue stripe running along the length of the bag at the centre along with additional identification marking of two consecutive red warp threads at a distance of about 150 mm away from any one side of the selvedge, dry sewn and conforming in all other respects to the current BIS specification (No. IS: 12650-2003 as amended till date) purchased or sold during the month of October, 2005. Every bag is to be branded with monogram to be specified by DGS&D,

Kolkata with the name of the manufacturing mill printed on it as well as BIS certification marking. The average minimum breaking strength shall not be less than 160 kgf for warp way and 145 kgf for weft way as provided in the aforesaid specification of BIS.

2. The price of Rs 1912.21 per 100 bags earlier fixed and published vide notification no S.O. 1591(E) dated 11th November, 2005, for the month of October, 2005, is hereby revised. All other conditions as mentioned in the notification no S.O. 1591(E) dated 11th November, 2005 published for the month of October, 2005 remain unaltered.

3. The price fixed under this Notification shall be exclusive of duty of excise, cess payable under Jute Manufacture Cess Act, 1983 and Sales Tax which shall be paid in addition to the ex-factory price by the purchaser.

[F. No. 8/1/2006-Jute]

S. MAJUMDAR, Jute Commissioner

अधिसूचना

कोलकाता, 10 फरवरी, 2006

का.आ. 203(अ).— भारत के राजपत्र के असाधारण भाग-II, खंड-3, उपखंड (ii) में प्रकाशित दिनांक 20 दिसम्बर 2005 के अधिसूचना सं० एस० ओ० 1786(ई) में अंशतः परिवर्तन करते हुए और पटसन तथा पटसन वस्त्र नियंत्रण आदेश 2000 की धारा 3 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, एस. मजुमदार, पटसन आयुक्त, एतद् द्वारा प्रति 100 बोरे की अधिकतम फैक्टरी उत्तर (एक्स फैक्टरी) मूल्य अन्तिम रूप से रु० 1904.69 निर्धारित करता हूँ, जिसमें 50 किलोग्राम पैकिंग हेतु उन्हीं बी. टवील जूट बोरे जिनका आकार 94 सेंमी०(+4,-0) X 57 सेंमी०(+4,-0)/ एच०डी० और द्रव्यमान प्रति बोरे 665 ग्राम (+8%,-6%) हो, अन्तिम सिरे प्रति डी० एम० 76(+4,-3) हो तथा पिक्स प्रति डी० एम० 28(+2,-2) जिसमें बोरे की लंबाई के मध्यभाग में एकहरी नीली धारी हो तथा किनारे की किसी भी साइड से लगभग 150 मि०मी० की दूरी पर दो क्रमागत लाल बाने के धागों का बना एक अतिरिक्त पहचान चिन्ह भी हो, जिनमें मजबूत सिलाई की गई हो तथा जो अन्य सभी दृष्टियों से भी भारतीय मानक ब्यूरो के विनिर्देशन (सं०भा०मा०12650-2003, अद्यतन यथासंशोधित) के अनुरूप हो नवम्बर माह, 2005 के दौरान खरीद अथवा बिक्री की जा सकेगी। प्रत्येक बोरे पर पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय, कोलकाता द्वारा विनिर्दिष्ट मोनोग्राम सहित बोरे पर मुद्रित मिल के नाम के पास भारतीय मानक ब्यूरो का प्रमाण चिन्ह भी हो। भारतीय मानक ब्यूरो के पूर्वोक्त विनिर्देशन में किए गए प्रावधान के अनुसार बोरे की न्यूनतम औसत सार्मध्य (ब्रेकिंग स्ट्रेन्थ) ताने की 160 के० जी० एफ० और बाने की 145 के० जी० एफ० हो।

2. दिनांक 20 दिसम्बर 2005 की अधिसूचना सं० एस० ओ० 1786(ई) द्वारा नवम्बर माह, 2005 के लिए प्रति 100 बोरे के लिए पूर्व निर्धारित मूल्य रु० 1910.94 में एतद्द्वारा संशोधन किया गया। नवम्बर माह, 2005 के लिए उक्त अधिसूचना सं० एस० ओ० 1786(ई) में उल्लिखित अन्य सभी शर्तें अपरिवर्तित रहेगा।

3. इस अधिसूचना के अधीन निर्धारित की गई मूल्य में जूट विनिर्माता उपकर अधिनियम, 1983 के अन्तर्गत देय उत्पाद शुल्क और बिक्रीकर सम्मिलित नहीं हैं एवं खरीददार द्वारा फैक्टरी उत्तर मूल्य के अलावा इन्हें अलग से भुगतान करना होगा।

[फा. सं. 8/1/2006-जूट]

एस. मजुमदार, पटसन आयुक्त

NOTIFICATION

Kolkata, the 10th February, 2006

S.O. 203(E).—In partial modification of notification no. S.O. 1786(E), dated 20th December, 2005 published in the Gazette of India, Extra-ordinary, Part-II Section-3, Sub-Section (ii) and in exercise of the powers conferred by Section-3 of the Jute and Jute Textiles Control Order, 2000, I, S. Majumdar, Jute Commissioner, hereby finally fix **Rs. 1904.69** per 100 bags as the maximum ex-factory price of B. Twill Jute Bags for 50kg packing of the size 94 cm(+4,-0) x 57 cm (+4,-0) / HD., 665gms.(+8%,-6%) mass per bag, 76(+4, -3) ends per dm, 28(+2, -2) picks per dm., single blue stripe running along the length of the bag at the centre along with additional identification marking of two consecutive red warp threads at a distance of about 150 mm away from any one side of the selvage, dry sewn and conforming in all other respects to the current BIS specification (No. IS: 12650-2003 as amended till date) purchased or sold during the month of **November, 2005**. Every bag is to be branded with monogram to be specified by DGS&D, Kolkata with the name of the manufacturing mill printed on it as well as BIS certification marking. The average minimum breaking strength shall not be less than 160 kgf for warp way and 145 kgf for weft way as provided in the aforesaid specification of BIS.

2. The price of Rs 1910.94 per 100 bags earlier fixed and published vide notification no S.O. 1786(E) dated 20th December, 2005, for the month of **November, 2005**, is hereby revised. All other conditions as mentioned in the notification no S.O. 1786(E) dated 20th December, 2005 published for the month of **November, 2005** remain unaltered.

3. The price fixed under this Notification shall be exclusive of duty of excise, cess payable under Jute Manufacture Cess Act, 1983 and Sales Tax which shall be paid in addition to the ex-factory price by the purchaser.

[F. No. 8/1/2006-Jute]

S. MAJUMDAR, Jute Commissioner

366 472006-2